

Please send the duly filled and signed biodata form, attested by the competent authority and send it through email at pscupald@gmail.com or through post addressed to The Controller of Examination, UP Public Service Commission, Prayagraj - 211018 (U.P.)

नोट:-कृपया सुनिश्चित करे ले कि कोई स्तम्भ अनभरा न रह जाए, लेकिन ऐसे स्तम्भ न भरें जाये जो आपसे संबंधित न हो।
Note:-Please ensure that no column is left blank; but you may not fill up the column which does not concern you.

उ०प्र०लोकसेवाआयोग, इलाहाबाद
U.P. PUBLIC SERVICE COMMISSION, ALLAHABAD
बायोडाटाकाप्रारूप
PROFORMA FOR BIODATA

फोटो
Please affix a
Passport size
photograph

कार्यालय के प्रयोगार्थ(For office use only)

1-पत्रावली संख्या.-----2-पैनल में शामिलकरनेकादिनांक.....
3-डिग्री / विषय-----कोड-----
4-विशेषज्ञता-----कोड-----
5-अति / उपविशेषज्ञता-----कोड-----

निम्नलिखित स्तम्भ विषय विशेषज्ञ द्वारा भरे जायेंगे:-
Following details shall be filled by the Expert:-

6-(ए) पूरानाम (प्रो० / डा० / श्री / श्रीमती / कु०) (Name in block letters (Prof./Dr./Mr./Mrs./Km.)

(बी) पिता/पति का नाम (Father/Husband Name)

(सी)जन्म तिथि (Date of birth)

____ / ____ / ____ (तिथि-महीना-वर्ष) (DD-MM-YYYY)

(डी) राष्ट्रीयता (Nationality)

(ई) लिंग (Sex)

_____पुरुष/महिला (Male/Female)

7- कृपया यह इंगित करें कि आप कार्यरत/सेवानिवृत्त (Whether Employed/Retired)

7ए- यदि कार्यरत हैं तो (If employed)

क- वर्तमान पदनाम (Present Designation)

ख- आपके कार्यालय/संगठन/संस्था/विश्वविद्यालय का नाम
Name of your Office/ Organization/ Institute/ University

ग- वेतनमान (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)
Pay Scale/Grade pay (According to 7th Pay Commission)

घ- कार्यालय का पता (Address of the Office)

ड- पिनकोड
Pin Code _____

7बी- यदि सेवानिवृत्त हों तो (If retired)

क- सेवानिवृत्त होने की तिथि (तिथि-महीना-वर्ष) (Date of Retirement) (DD-MM-YYYY)

ख- वेतनमान/अंतिम भुगतान राशि (Pay Scale /Last drawn pay)

ग- सेवानिवृत्त के बाद यदि किसी सेवा में नियोजित हैं तो उसका विवरण

The details of the service employed after retirement, if any _____

अन्तिम पता (यदि सेवानिवृत्त हों और किसी भी रूप में सेवायोजित न हों)

Last Address (If retired and not re- employed):

पिनकोड

Pin Code _____

8- डाक का पता (यदि आवासीय पता ही डाक का पता हो तो कृपया इंगित करें)

Postal Address (If residential address is same as the postal address, please indicate)

पिनकोड (Pin Code)

9- दूरभाष नं०

Contact No.

मोबाइल नं०

Mobile No. :

फैक्स नं०

Fax No. :

ई-मेल

Email :

_____@_____

10-

प्रथम उपाधि या समकक्ष शैक्षणिक/व्यवसायिक अर्हता :- (उदाहरणार्थ यदि आप किसी विषय में डाक्टरेट स्कालर हैं तो प्रथम उपाधि या तो कला स्नातक/विज्ञान स्नातक या समकक्ष अर्हता)

Academic /Professional qualification starting with the first degree/graduation onwards or equivalent:- (Eg. If you are a scholar with a doctorate in any subject, the first degree will be either BA/BSc. or equivalent.)

डिग्री DEGREE	वर्ष YEAR	विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम NAME OF UNIVERSITY/ INSTITUTION	विषय:मुख्य/आनुषांगिक SUBJECT: MAJOR / SUBSIDIARY

- 11- विशेषज्ञता का क्षेत्र: (केवल शैक्षणिक अर्हताओं एवं रोजगार/सेवा अनुभव के आधार पर भरा जाना है।) (इसे भरने के पूर्व कृपया इस पृष्ठ के तल पर दृष्टांत देखें)

Field of specialisation: (To be filled in on the basis of Academic Qualification and Job/Service-Experience Only) (Before filling please see the illustration mentioned at the bottom of the page)

मुख्य क्षेत्र MAIN FIELD	विशेषज्ञता SPECIALISATION	शीर्षस्थ-विशेषज्ञता SUPER SPECIALISATION

12-(क) स्नातक/स्नातकोत्तर/अन्य व्यवसायिक अध्यापन अनुभव का विवरण(वर्षों में)
कालक्रमानुसार

Details of teaching experience at the level of Graduation/ Post Graduation/ Professional. (In years) Chronologically :-

विश्वविद्यालय/शिक्षण संस्थान का नाम Name of University/ Institution	पदनाम Designation	वर्षसे.....तक..... Year From _____ To _____	किस कक्षा स्तर तक Which class standard

(ख) संघ लोक सेवा आयोग या अन्य राज्यों के लोक सेवा आयोग में परीक्षक/विशेषज्ञ के रूप में कार्य करने का अनुभव (वर्षों में) :-

Experience of working in UPSC/ any other State Public Service Commission as an Examiner/Expert.(No. of years):-

कार्य करने का विवरण

Details of work

done-----

13- (1) मान्यता प्राप्त पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित स्वतंत्र एवं सहलेखन सम्बन्धी शोध पत्र/पुस्तक लेखन/सम्पादन संबंधी विवरण:

Details regarding publication of independent and co-writing research papers / book writing / editorials in accredited paper-journals.

(11) अन्य –(उपलब्धियों / सम्मान / पुरस्कार इत्यादि)

Others - (Achievements / Honour / Awards etc.)

14— भाषायी प्रवीणता (Capability of working in the languages)

1
2.
3-

नोट—ज्ञान के स्तर के स्तम्भ में उत्कृष्ट / अच्छा / सामान्य को इंगित करें ।

NOTE: In the level of Knowledge column indicate Excellent/ Good / Fair

15— क्या आप संघ लोक सेवा आयोग / अन्य राज्य लोक सेवा आयोग / संस्था से प्रतिवारित किये गये हैं अथवा किसी जाँच संगठन (Investigative organization) द्वारा किसी तरह की कोई जाँच का सामना कर चुके हैं या कर रहे हैं ? (हाँ / नहीं)

Have you been debarred from UPSC or any other State Public Service Commission / Institution Or faced/facing any enquiry by an investigative organization? (Yes/No)

16— क्या आपके ऊपर आपराधिक वाद / प्राथमिकी / सजा की कार्यवाही किसी न्यायालय में लम्बित है ? (Have you been Any criminal case/F.I.R. lodged/Conviction is lying against you in any court?)

17— कोई अन्य सूचना जो आप उ0प्र0 लोक सेवा आयोग को देना चाहे :

Any other information that you want to give to the UP Public Service Commission

घोषणा
DECLARATION

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रारूप में स्तम्भों में भरी गई समस्त प्रविष्टियाँ मेरी जानकारी में सही एवं सत्य हैं और मेरे द्वारा न तो कोई तथ्य छिपाया गया है और न ही गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। मैं किसी कोचिंग संस्था में न तो अध्यापन करता हूँ और न ही उससे सम्बद्ध हूँ।

I declare that all the entries filled in the columns in this Proforma are true to the best of my knowledge and nothing has been either concealed hidden or misrepresented by me. I am not engaged in any coaching Institute for teaching or any institution affiliated with it.

हस्ताक्षर

Signature

कुलसचिव/ प्राचार्य/ सक्षम

प्राधिकारीकी संस्तुति

Registrar/Principal/ Recommendation
of Competent Authority

स्थान _____

Place _____

तिथि _____

Date _____

विषय विशेषज्ञ के हस्ताक्षर

Signature of Subject Expert

नाम _____

Name _____